

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 07, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***105 वाहनों का चालान व 16 वाहनों से कुल 16000/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 07*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल-86 व्यक्तियों से 8800/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल-35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल 02 अभि0 गणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न है-

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त महेन्द्र राव पुत्र मोती नि० कम्हरिया कला थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से *10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 124/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लक्ष्मण उर्फ बिगाडू पुत्र रामसमुझ नि० बड़हरारानी थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से *10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 482/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विजय तिवारी पुत्र विरेन्द्र सा० हरैडीह थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के ऊपर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- ¾ गुण्डा एक्ट* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए *कुल-13* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 06/07-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल-37 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।